

NavinKhandelwal

F.C.A, D.I.S.A, RegValuer ,IRP
IBBI Reg. No. IBBI/IPA-001/IP-P00703/2017-2018/11301

206,Navneet Plaza,
Old Palasia,Indore-452018
Email:navink25@yahoo.com

GBGL/SE/RP/NK/2020-21

13th November, 2020

Online filing at www.listing.bseindia.com

To,
The General Manager
DCS-CRD
BSE Limited
Dalal Street, Fort
Mumbai – 400001
BSE CODE: 505711

Subject: Submission of Press Clipping Related to extract of Standalone Un-Audited Quarterly Financial Results for the Quarter/Half year ended on 30th September, 2020.


Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A(A) and in compliance of Regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 regarding extract of Standalone Un-Audited Quarterly/Half yearly Financial Results for the Quarter ended on 30th September, 2020 was approved by the RP on Thursday, 12th November, 2020, as the company is undergoing CIRP

We herewith enclose the newspaper advertisement published on 13.11.2020 in Free Press Journal English edition and Chotha Sansar Hindi edition.

You are requested to please take on record our above said information for your reference and record.

Thanking you,
Yours faithfully,



NAVIN KHANDELWAL
IBBI/IPA-001/IP-P00703/2017-18/11301)
IRP/RP for Gajra Bevel Gears Ltd. Under CIRP

Encl: a/a

एक नजर

आस सामर में भारत का जमीन खोपीन भेगी की 5वीं पड़ोसी नोसेना में शामिल
नई दिल्ली: भारत ने सोमवार को पांच पड़ोसी देशों को शामिल कर आस सामर में भारत का जमीन खोपीन भेगी की 5वीं पड़ोसी नोसेना में शामिल करने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार और नेपाल को शामिल किया जाएगा।

कमान लेने की घोषणा: रोम ने वैलेंते को साइट हाउस का चीफ ऑफ स्ट्रफ बनाया
बर्लिन: 20 नवंबर को रोम में एक बैठक हुई जहाँ रोम के कमान लेने की घोषणा की गई। वैलेंते को साइट हाउस का चीफ ऑफ स्ट्रफ बनाया गया।

पुनाव से पहले मुश्किल में ममता केविनेट मीटिंग से 5 मंत्री गायब रहे
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में पुनाव से पहले मुश्किल में ममता केविनेट मीटिंग से 5 मंत्री गायब रहे।

बेटे की शादी के लिए यात्रा प्रमोते की पुर्तूरी नहीं मिली, फूट-पूटकर जाए, बीवीला ममिता में भरो
मद्रास: एक पुरुष को अपनी बेटे की शादी के लिए यात्रा प्रमोते की पुर्तूरी नहीं मिली, फूट-पूटकर जाए, बीवीला ममिता में भरो।

निर्वात बढ़ने के लिए सकल त्ता र्दी नई विधि यापार कर्ता
नई दिल्ली: पेटेंट प्रणाली को सुधारा देने के लिए नई विधि यापार कर्ता।

2022 तक देश पोषित हो जाएगा हिंदू राष्ट्र-नवम्बर
नवम्बर 2022 तक देश पोषित हो जाएगा हिंदू राष्ट्र-नवम्बर।

जाहिर र्तुना
संयुक्त राष्ट्र के नए अध्यक्ष चुने जाते हैं।

भारत-चीन तनाव पर बोला रूस- क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी भारत को जल्द से जल्द मिलेगा एस-400 मिसाइल

नवम्बर 2018 में, भारत ने रूस के साथ एस-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की पांच इकाइयों को खरीदने के लिए रूस के साथ 5 बिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

एक बार में दूरगम में कर सकता है 36 घंटे

S-400

- 100 से अधिक 400 टॉपिक एरियल डिफेंस सिस्टम
- 4000 टॉपिक एरियल डिफेंस सिस्टम
- 100 से अधिक 400 टॉपिक एरियल डिफेंस सिस्टम
- 4000 टॉपिक एरियल डिफेंस सिस्टम
- 100 से अधिक 400 टॉपिक एरियल डिफेंस सिस्टम
- 4000 टॉपिक एरियल डिफेंस सिस्टम

तनाव का वैश्विक असर
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में असर पड़ेगा।

चीन से तनाव
चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में असर पड़ेगा।

जल्द मिलेगी एस-400
भारत एस-400 मिसाइल प्रणालियों की खरीद करेगा।

GAJRA BEVEL GEMS LIMITED

FINANCIAL STATEMENT FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER, 2020

Particulars	Quarter Ended on		Half Year Ended on	
	September 30, 2020	June 30, 2020	September 30, 2019	March 31, 2020
Total Income from Operations (Net)	741.82	501.13	685.75	1242.75
Profit (Loss) from ordinary activities before tax, Exceptional Items	-60.09	-78.20	-139.72	-138.29
Profit (Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	-60.09	-78.20	-139.72	-138.29
Net Profit (Loss) (Less) from	-37.59	-76.35	-116.14	-93.60
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit (Loss) for the period after Extraordinary Items and other comprehensive income (after tax)	-37.54	-74.50	-115.69	-92.90
Particulars	696.62	696.52	696.62	696.52
Earning Per Share (EPS) of ₹100 each (to be annualized)	-0.54	-1.10	-1.67	-1.84

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

सुनवार असर

रेनोव रैसीडीसी सैलैतागंज इन्ड्री शहर के इदय स्थल में प्लैट उपलब्ध

क्र.	प्लैट का विवरण	प्लैट का मूल्य (लाख में)	प्लैट का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1.	सुनवार इन्ड्री का प्लैट	21	68.27
2.	सुनवार इन्ड्री का प्लैट	21	68.27

नीलामी सूचना

संयुक्त राष्ट्र के नए अध्यक्ष चुने जाते हैं।

जेन्यूव कैपस में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण कर बोले पीएम देश के खिलाफ नहीं होनी चाहिए विचारधारा

नई दिल्ली, एनडीए: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेन्यूव कैपस में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण कर बोले देश के खिलाफ नहीं होनी चाहिए विचारधारा।

CHOKSI LABORATORIES LIMITED

Statement of Un-audited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September, 2020

S. No.	Particulars	Quarter Ended on		Half Year Ended on	
		September 30, 2020	June 30, 2020	September 30, 2019	March 31, 2020
1	Total Income from Operations (Net)	741.82	501.13	685.75	1242.75
2	Profit (Loss) from ordinary activities before tax, Exceptional Items	-60.09	-78.20	-139.72	-138.29
3	Profit (Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	-60.09	-78.20	-139.72	-138.29
4	Net Profit (Loss) (Less) from	-37.59	-76.35	-116.14	-93.60
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit (Loss) for the period after Extraordinary Items and other comprehensive income (after tax)	-37.54	-74.50	-115.69	-92.90
6	Particulars	696.62	696.52	696.62	696.52
7	Earning Per Share (EPS) of ₹100 each (to be annualized)	-0.54	-1.10	-1.67	-1.84

Notes: The above is an extract of the detailed form of Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September, 2020 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosures Requirements) Regulations, 2015.

वि.खामगांव अर्बन को-ऑप.बैंक.लि.,खामगांव

प्रधान कार्यालय - बाराबंकी, श्रीराम शालीनार्थ प्लांट, खामगांव, वार्डिक आम बैठक (केवल सभासदों के लिए)

सभासदों को सूचित किया जाता है कि बैंक की आम बैठक 13 नवंबर 2020 को आयोजित होगी।

बैठक का एण्डा

1. 2020-21 के अकेउटी 4.8 वर्षीय आम बैठक के अंतिम को प्रस्तुत करने के लिए।
2. सभासदों के बीच मतदान।
3. सभासदों के बीच मतदान।
4. सभासदों के बीच मतदान।
5. सभासदों के बीच मतदान।
6. सभासदों के बीच मतदान।
7. सभासदों के बीच मतदान।
8. सभासदों के बीच मतदान।
9. सभासदों के बीच मतदान।
10. सभासदों के बीच मतदान।
11. सभासदों के बीच मतदान।
12. सभासदों के बीच मतदान।
13. सभासदों के बीच मतदान।
14. सभासदों के बीच मतदान।
15. सभासदों के बीच मतदान।
16. सभासदों के बीच मतदान।
17. सभासदों के बीच मतदान।
18. सभासदों के बीच मतदान।
19. सभासदों के बीच मतदान।
20. सभासदों के बीच मतदान।

सूचना

सभासदों को सूचित किया जाता है कि बैंक की आम बैठक 13 नवंबर 2020 को आयोजित होगी।



GAJRA BEVEL GEARS LIMITED

Registered Office - Industrial Area, A.B. Road, Dewas MP 455001

CIN: L34300MP1974PLC001598

Email: secretary@gajrabevel.com, ssg@gajrabevel.com • Website: www.gajrabevel.com

STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/HALF YEAR ENDED ON 30.09.2020

Particulars	(Rs. in Lakhs) (except EPS)		
	Quarter ending 30.09.2020 (Unaudited)	Previous Year ending 31.03.2020 (Audited)	Corresponding 3 months ended in the previous year 30.09.2019 (Unaudited)
Total income from Operations	0.00	0.00	0.00
Net Profit (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	(1.40)	(14.31)	(8.95)
Net Profit (Loss) for the period Before Tax (After Exceptional and/ or Extraordinary items)	(1.40)	(14.31)	(8.95)
Net Profit (Loss) for the period After Tax Exceptional and/ or Extraordinary items)	(1.40)	(14.31)	(8.95)
Total comprehensive Income for the period (Comprising Profit) (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after Tax)	(1.40)	(14.31)	(8.95)
Equity Share Capital (FV of Rs. 10/-)	940.41	940.41	940.41
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	0.00	(4810.32)	0.00
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
Basic:	0.02	0.20	0.07
Diluted:	0.02	0.20	0.07

Notes: 1.As the company is undergoing Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) vide Hon'ble National Company Law Tribunal, Indore Bench at Ahmedabad Order dated 12th June, 2020 ("Order"), in terms of the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, pursuant to the said Order and in accordance with the provisions of IBC, the powers of the Board of Directors and responsibility for managing the affairs of the Company are vested in, Mr. Navin Khandelwal, in his capacity as the Resolution Professional (RP) of the Company. 2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the www.bseindia.com.

Date : 11th November, 2020
Place : Indore

NAVIN KHANDELWAL
IBB/CPA-001/MP-P00703/2017-18/113011
Resolution Professional for Gajra Bevel Gears Ltd.